

प्रमाण-पत्र 'ब' / Certificate 'B'

(उन रोगियों के मामले में भरा जाये जो उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती हुए)

(To be completed in the case of patients who are admitted to the hospital for treatment)

भाग 'अ' / Part 'A'

मैं डा०/I, Dr. \_\_\_\_\_ एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ hereby certify:

(अ) कि रोगी डॉक्टर के परामर्श से दाखिल हुआ / That the patient was admitted to hospital on my advice Dr. \_\_\_\_\_

(ब) कि रोगी उपचार के लिए समय पर /That the patient has been under treatment at \_\_\_\_\_ अस्पताल में मेरे द्वारा रोगी के लिए उल्लेखनीय दवाओं के सेवन करने का परामर्श सारभूत रूप से वापसी गम्भीर अवस्था में शर्त होगी hospital and that the undermentioned medicines prescribed by me in this connection were essential for the recovery/prevention of serious deterioration in the condition on the patient. दवाएँ भण्डार में होने की स्थिति में/ The medicines are not stocked in the \_\_\_\_\_ अस्पताल में व्यक्तिगत रोगों की पूर्ति के लिए तथा अति आवश्यक दवाओं के सम्मिलित न होने पर सस्ते मूल्य पर चिकित्सा सम्बन्धी दवायें तथा प्राथमिक भोजन, शौच, विश्राम आदि सुविधायें उपलब्ध कराना है /hospital for supply to private patients and do not include proprietary preparations for which cheaper substance of equal therapeutic value are available, not preparations which \_\_\_\_\_ are primarily foods, toilets of disinfections.

दवाओं के नाम / Name of Medicines

कीमत/Cost : ₹0/Rs.

पै०/P

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

(स) कि सुई को दवायें सहायतार्थ रोग मुक्त कराने के लिए उपलब्ध थी अथवा रोगी के सम्बन्ध में भविष्यवाणी न होगी/ That the injections administered were/ were not for immunizing or prophylactic purpose.

(द) रोगी पीड़ित है/था/That the patient is/was suffering from \_\_\_\_\_ और जिसका इलाज मेरे द्वारा दिनांक/and under my treatment from \_\_\_\_\_ to/से \_\_\_\_\_ तक किया गया |

(य) यह कि एक्स-रे प्रयोगशाला जाँच के लिए ₹0/ That the X-Ray, Laboratory tests etc for which expenditure of Rs. \_\_\_\_\_ निजी था/was incurred. मेरी देखरेख में मेरे परामर्श से अस्पताल \_\_\_\_\_ में आवश्यक थे / were necessary and were undertaken on my advice at \_\_\_\_\_ hospital.

(र) कि मैंने डा०/That I called in Dr. \_\_\_\_\_ को विशिष्ट जानकारी के लिये बुलाया / for specialist consultation / और डा० / and that the necessary approval of the Dr. \_\_\_\_\_ राज्य प्रबन्धक चिकित्सा अधिकारी नियमों के अन्तर्गत आवश्यक अनुमति-पत्र दिया गया था / the administrative Medical Officer of the state as required under the rule was obtained.

हस्ताक्षर एवं पद

Signature and Designation of  
प्रबन्धक चिकित्सा अधिकारी  
the Medical Officer In-charge  
अस्पताल में रोग (मामले सम्बन्धित)  
of the case at the hospital  
(P.T.O.)

**भाग 'ब' / Part 'B'**

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे उपचार में / I certify that the patient has been under treatment at the \_\_\_\_\_ अस्पताल में रह चुका/ चुकी है। उसकी सेवा के लिए विशेष नर्स जिसका खर्चा रु० / and that the service of the special nurses, for which an expenditure of Rs. \_\_\_\_\_ बिल के अनुसार था और उसकी रसीद संलग्न है/was incurred vide bills receipts attached रोगी के अनिवार्यता वापस गम्भीर अवस्था में कथन के समय मौजूद थे/were essential for the recovery/ prevention of serious deteriorations in the condition of the patient.

हस्ताक्षर चिकित्सा अधिकारी  
Signature of Medical Officer In-charge  
(रोग मामले सम्बन्धी)  
of the case at the Hospital  
प्रतिहस्ताक्षरित/ Countersigned

**अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के प्रतिहस्ताक्षर/  
Counter signature of the Medical Superintendent of the Hospital**

मैं प्रमाणित करता हूँ कि रोगी के उपचार के समय / I certify that the patient has been under treatment at the \_\_\_\_\_ अस्पताल में था जो रोगी की सुविधाओं के लिए कम खर्च पर उपचारार्थ आवश्यक थे/ Hospital and that the facilities provided were the minimum which were essential for the Patient's treatment.

स्थान / Place  
तारीख/ Date

चिकित्सा अधीक्षक  
Medical Superintendent  
अस्पताल/ Hospital \_\_\_\_\_

ध्यान दें :- प्रमाण-पत्र नाम कट जाने के बाद उपलब्ध न होगा | प्रमाण-पत्र 'द' अनिवार्य है | चिकित्सा अधिकारी को सभी मामलों में कागजात नत्थी करने चाहिए |

N.B. :- Certificate not applicable should struck off certificate (D) is compulsory and Must be filled in by the Medical Officer in all cases.